



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 1982/कार्तिक 3, 1904

No. 490] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 1982/KARTIKA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1982

का० आ० 763-(अ)/18कक/आई० डी० आ० ए०/82—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पुनर्निर्माण (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 319(अ)/18णण/आई० डी० आ० ए०/76 तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने सैमर्स प्लाई वुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाम्पोर, जम्मू कश्मीर नामक पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 26 अप्रैल, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, ग्रहण करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्राधिकृत किया था :—

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 318 (अ)/18कक/ओ०यि०वि०अ०/81, तारीख 25 अप्रैल, 1981 द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 1976 के उक्त आदेश की अवधि 26 अप्रैल, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 287 (अ)/आई० डी० आ० ए०, तारीख 26 अप्रैल, 1982 द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 1976 के उक्त आदेश की अवधि 26 अक्टूबर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि तारीख 27 अप्रैल, 1976 का उक्त आदेश 31 मार्च 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की अपाधा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेदन देती है कि तारीख 27 अप्रैल, 1976 का उक्त आदेश, 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ।

[का० सं० 2(6)/81-सी० ए० सी]

ए० पी० सरवन समुक्त यन्त्रिक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th October, 1982

S.O. 763(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319(E)/18AA/IDRA/76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 5th April 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 318(E)/18AA/IDRA/81, dated the 25th April, 1981, the duration of the said Order dated the 27th

April, 1976, was extended upto and inclusive of the 26th April, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 287(E)/18AA/IDRA/82 dated the 26th April, 1982 the duration of the said Order dated 27th April, 1976 was further extended upto and inclusive of the 26th October, 1982;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order dated the 27th April, 1976 should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby directs that said Order dated the 27th April 1976, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1983.

[F. No. 2(6)/81-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.